

(क) कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली में कौन सी सामान्य रिपोर्टें बनाई जाती हैं? कौन फलो स्टेटमेंट का उद्देश्य बताइये।

या

(ख) इन्वेंट्री प्रबंधन में स्टॉक समूहों और स्टॉक आइटमों के महत्व की व्याख्या कीजिए। टैली ईआरपी 9 में इन्हें कैसे बनाया जाता है?

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 2406

I

Unique Paper Code : 2413210002

Name of the Paper : COMPUTER
APPLICATIONS IN
ACCOUNTING

Name of the Course : B.A. UGCF

Semester

Duration : 2 Hours Maximum Marks : 60

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answer **all** questions.
3. **All** questions carry equal marks. Each question carries **10** marks.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

2406

2

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
3. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

OR

- (b) Explain the key differences between financial accounting and management accounting.

2406

7

- (क) लेखांकन में जीएसटी की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली में जीएसटी कैसे दर्ज किया जाता है?

या

- (ख) टैली ईआरपी 9 का उपयोग करके लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए।

6. (a) What are the common reports generated in a computerized accounting system? Explain the purpose of a Cash Flow Statement.

OR

- (b) Explain the significance of stock groups and stock items in inventory management. How are these created in Tally ERP 9?

P.T.O.

- (क) टैली ईआरपी 9 में लेखांकन लेजर और समूह बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एकल और एकाधिक मोड के लिए चरण शामिल कीजिए।

या

- (ख) टैली ईआरपी 9 में सुरक्षा सुविधाओं के महत्व की व्याख्या कीजिए और उन्हें कैसे कॉन्फिगर किया जाता है।

5. (a) Explain the concept of GST in accounting. How is GST recorded in a computerized accounting system?

OR

- (b) Discuss the procedure for generating a Profit & Loss Account and Balance Sheet using Tally ERP 9.

- (क) लेखांकन को परिभाषित कीजिए। व्यावसायिक माहौल में लेखांकन के मुख्य उद्देश्य और महत्व क्या हैं?

या

- (ख) वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन लेखांकन के बीच मुख्य अंतरों की व्याख्या कीजिए।

2. (a) What is the double-entry bookkeeping system? Explain the rules of debit and credit with examples.

OR

- (b) How is a Trial Balance prepared? Highlight its significance in detecting errors.

2406

4

- (क) दोहरी प्रविष्टि बहीखाता पद्धति क्या है? उदाहरण सहित डेबिट और क्रेडिट के नियमों की व्याख्या कीजिए।

या

- (ख) ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार किया जाता है? त्रुटियों का पता लगाने में इसके महत्व पर प्रकाश डालिये।

3. (a) Explain the features of computerized accounting systems. How do they improve business efficiency compared to manual systems?

OR

- (b) Discuss the factors to consider when selecting computerized accounting software for a small business.

2406

5

- (क) कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणालियों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। वे मैन्युअल प्रणालियों की तुलना में व्यावसायिक दक्षता में कैसे सुधार करती हैं?

या

- (ख) छोटे व्यवसाय के लिए कम्प्यूटरीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर का चयन करते समय विचार करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए।

4. (a) Describe the process of creating Accounting Ledgers and Groups in Tally ERP 9. Include steps for single and multiple modes.

OR

- (b) Explain the importance of security features in Tally ERP 9 and how they are configured.

P.T.O.